



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 263]  
No. 263]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 1980/आषाढ़ 3, 1902  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 1980/ASADHA 3, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 24 जून, 1980

11 जुलाई, 1980 (शुक्रवार)

(इ) वह तारीख जिससे पूर्व मतदान पूरा कर लिया जाएगा  
15 जुलाई, 1980 (मंगलवार)

[सं. 318/हरि./80(1)]

का. आ. 458(अ).—राष्ट्रपति ने तारीख 24 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा हरियाणा विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में यह अपेक्षा की है कि वे राज्य सभा के लिए दो सदस्य निर्वाचित कर दें,

अतः अब, निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित तारीखें नियत करता है :—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख

1 जुलाई, 1980 (मंगलवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख

2 जुलाई, 1980 (शुक्रवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अंतिम तारीख

4 जुलाई, 1980 (शुक्रवार)

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा

## ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th June, 1980

S.O. 458(E).—Whereas the President has, by notification published in the Gazette of India on the 24th June, 1980, called upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Haryana to elect two members to the Council of States.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints with respect to the said election—

- 1st July, 1980 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- 2nd July, 1980 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- 4th July, 1980 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- 11th July, 1980 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- 15th July, 1980 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 318/HR/80(1)]

**का. आ. 459(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग तारीख 24 जून, 1980 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसारण में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं. 318/हरि./80(2)]

**S.O. 459(E).**—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 11.00 a.m. to 3.00 p.m. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at the biennial election to the Council of States, to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on the 24th June, 1980.

[No. 318/HR/80(2)]

**का. आ. 460(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसारण में, निर्वाचन आयोग, हरियाणा राज्य सरकार के परामर्श से तारीख 24 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसारण में, उक्त राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए सचिव, हरियाणा विधान सभा को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है।

[सं. 318/हरि./80(3)]

**S.O. 460(E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby designates in consultation with the

Government of Haryana, the Secretary, Haryana Vidhan Sabha, to be the Returning Officer in respect of the biennial election to the Council of States to be held in the said State in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on 24th June, 1980.

[No. 318/HR/80(3)]

**का. आ. 461(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उप सचिव, हरियाणा विधान सभा को तारीख 24 जून, 1980 की अपनी अधिसूचना सं. 318/हरि./80(3) द्वारा राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचनों के लिए नियुक्त किए गए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए नियुक्त करता है।

[सं. 318/हरि./80(4)]

आदेश से,

के. गणेशन, सचिव

**S.O. 461(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Deputy Secretary, Haryana Vidhan Sabha, to assist the Returning Officer, appointed vide Commission's notification No. 318/HR/80(3), dated the 24th June, 1980, for the Biennial Election to the Council of States, in the performance of his functions.

[No. 318/HR/80(4)]

By Order,

K. GANESAN, Secy.